


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

v l k/kj .k

EXTRAORDINARY

Hkx II—[k. M 3—mi & [k. M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

i kf/dkj l s i d k f'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

l a 2801]

ubzfnYyh] ekyokj] fnl Ecj 17] 2013@vxgk; .k 26] 1935

No. 2801]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2013/AGRAHAYANA 26, 1935

शहर विकास मंत्रालय

(द्वितीय भाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसंबर, 2013

का.आ. 3690 (अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित ं के संबंध मद्दली के माप्टर प्लान जोनल-जे के लिए जोनल प्लान मके सरकार का जन कुछ संशोधन का ताव था, उहद्वली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) क धारा 44 के ावधान के अनुसार द्नांक 5 अप्रैल, 2013 का.आ. सं. 929(अ) का सावजनिक सूचना ारा भारत के असाधारण राजप मकाशित क्रया गया जसमऊ नोटस कतारख से तीस दन के अंदर उ अधिनियम क धारा 11 ए के उप-धारा (3) ारा यथा अपे त आप यां/सुझाव आमंत क्रए गए ।

2. यतः तावत संशोधन के संबंध मकोई आप/सुझाव ा नहं हुआ है और ताव पर द्वली विकास ाधिकरण ारा बैठक मवचार क्रया गया।

3. यतः के सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ानपूवक वचार करने के बाद द्वली के माप्टर प्लान-2021 मसंशोधन करने का निण लिया है ।

4. अतः, अब उ० अधिनियम क०धारा 11 ए क०उप-धारा (2) ारा द० श० य०का ०योग करते हुए, के० सरकार भारत के राजप० म०इस अधिसूचना के ०काशित होने क०तारख से द्द०ली के उ० मा०टर ०लान- 2021 जोन-जे के लिए जोनल ०लान म०एत०० वारा नि०नलि०खत संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन के-।। म०अधोलि०खत सूची के अनुसार नि०नलि०खत भूमि के भू-उपयोग म०प्र०वत० क०या जाता है:

०००न	००फल और ०००न	भूमि उपयोग द्द.मु.यो.-2021 के अनुसार	भूमि उपयोग नि०नलि०खत म० प०वति०	०० क०सीमाएं
सेक्टर 24, ारका जोन के-।।	100 मी. चौड़ा सड़क के सामने सैक्टर-24 ारका म०.48 है०टेयर	'मनोरंजना०मक'	०यावसायिक, सी-।	उ०र: ००ीय व०कास योजना/100 मी० चौड़ा यूई.आर-।। के अनुसार व०हायशी द०ण: ००ीय व०कास योजना के अनुसार मनोरंजना०मक /धूल सिरस गांव पूव० ००ीय व०कास योजना के अनुसार ०यावसायिक /आई.एफ. सी से०टर 25, ारका प०म: ००ीय व०कास योजना के अनुसार मनोरंजना०मक/100 मी. चौड़ा, यूई.आर.।
सैक्टर 24 ारका जोन के-।।	60 मी. चौड़ा सड़क के सामने सैक्टर-24 ारका म०.48 है०टेयर	०यावसायिक, सी 3 होटल	मनोरंजना०मक	उ०र: ००ीय व०कास योजना के अनुसार मनोरंजना०मक और आशिक ०प से पीएसपी, सेक्टर 24 ारका द०ण: ००ीय व०कास योजना के अनुसार व०हायशी/60 मी० चौड़ा पूव० ००ीय व०कास योजना के अनुसार व०हायशी (से०टर -19, ारका)/60 मी० चौड़ा प०म: ००ीय व०कास योजना के अनुसार मनोरंजना०मक
सैक्टर 24 ारका जोन के-।।	60 मी. चौड़ा सड़क के सामने सैक्टर-24 ारका म०.51 है०टेयर	व्यावसायिक, सी 3 होटल	साव०निक/अध-साव०निक सु०वधाएं, पीएस 3	उ०तर: ००ीय व०कास योजना के अनुसार मनोरंजना०मक द०ण: मनोरंजना०मक सेक्टर-24, ारका पूव० ००ीय व०कास योजना के अनुसार व०हायशी (से०टर-19, ारका) 60 मी. चौड़ा प०म: ००ीय व०कास योजना के अनुसार मनोरंजना०मक

[सं. के-12011/3/2010 (जोन के-II) ड०ड०- I]

सुनील कुमार , अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2013

S.O. 3690 (E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 929(E) dated 05/04/2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objections/suggestions was received in this regard to the proposed modifications and proposal was also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following land in Zone K-II is change as per description listed below:

Location	Area & Location	Landuse (MPD-2021)	Landuse changed to	Boundaries of the Area
Sector-24, Dwarka, Zone K-II	8.48 Ha in Sector-24, Dwarka facing 100 m wide road.	Recreational	Commercial, C-1	North: Residential as per ZDP/100 m wide UER-II. South: Recreational as per ZDP/Dhulsiras village. East: Commercial as per ZDP/IFC Sector-25, Dwarka. West: Recreational as per ZDP/100 M wide UER-II.
Sector-24, Dwarka, Zone K-II	8.48 Ha in Sector-24, Dwarka facing 60 m wide road.	Commercial, C-3 Hotels	Recreational	North: Recreational as per ZDP and partly PSP Sector-24, Dwarka. South: Residential as per ZDP/Road 60 m wide. East: Residential as per ZDP (Sector-19, Dwarka)/Road 60 m wide. West: Recreational as per ZDP.
Sector-24, Dwarka, Zone K-II	3.51 Ha in Sector-24, Dwarka facing 60 m wide road.	Commercial, C-3 Hotels	Public/Semi Public facilities, PS-3.	North: Recreational as per ZDP. South: Recreational pocket Sector-24, Dwarka. East: Residential as per ZDP (Sector-19, Dwarka)/Road 60 m wide. West: Recreational as per ZDP.

No. K-12011/3/2010 (Zone K II)-DD-I

SUNIL KUMAR, Under Secy.